



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 695 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2019 (ई०)

#### परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2019

संख्या-परि०वि०(स्था०)-124/2015-855-- उपायुक्त, हजारीबाग एवं उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा स्थानीय एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्रमशः श्री डेविड बलिहार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग तथा श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त अनुरोध एवं उपायुक्त द्वारा अनुशंसित निम्नांकित कार्यपालक दण्डाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जिला का नाम
1	श्री डेविड बलिहार, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी।	हजारीबाग।
2	श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी।	जामताड़ा।

2. उपरोक्त दोनों पदाधिकारी प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णांकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने जिलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोक-थाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

4. उपरोक्त दोनों पदाधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**हरेन्द्र कुमार पाण्डेय**  
सरकार के उप सचिव,  
परिवहन विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

-----